



इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) (सीआईएन L65910DL1986GOI026363)

पंजीकृत कार्यालय: सूजी फ्लोर, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दूरभाष: +91-011- 24361480 ई-मेल: info@irfc.co.in, वेबसाइट: <https://irfc.co.in>

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise) (CIN: L65910DL1986GOI026363)

Regd. Office: UG Floor, East Tower, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi -

110003 Phone: +91-011- 24361480 E-mail: info@irfc.co.in, Website: <https://irfc.co.in/>

No: IRFC/SE/2025-26/38

07th August, 2025

National Stock Exchange of India Limited Listing department, Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051 Scrip Symbol: IRFC	BSE Limited Listing Dept / Dept of Corporate Services, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai -400 001 Scrip Code: 543257
---	--

Sub: Newspaper Publications- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable regulation, as amended from time to time, please find enclosed herewith Newspaper Clippings of the publications in English and regional (Hindi) newspaper(s).

This is submitted for your information and record.

Thanking You,

For Indian Railway Finance Corporation Limited

VIJAY BABULAL
SHIRODE

Digitally signed by VIJAY
BABULAL SHIRODE
Date: 2025.08.07 12:17:54 +05'30'

(Vijay Babulal Shirode)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

व्यक्ति



● SANJEEV KUMAR BIJLI, EXECUTIVE DIRECTOR, PVR INOX

'Hindi films have bounced back, now delivering variety'

With footfalls rebounding and a strong content pipeline, PVR INOX is seeing renewed momentum in India's theatrical exhibition space. Sanjeev Kumar Bijli, executive director, PVR INOX, tells Geetika Srivastava how the company is balancing scale with strategy across content, formats, and F&B. Excerpts:

How are footfalls trending across PVR INOX properties and what factors are driving audience turnout?

Q1 footfall has been very encouraging. We had 34 million people visiting cinemas this quarter, as opposed to 30 million in Q1 last year — a growth of 12%. This increase is primarily due to the strong movie line-up we had in April, May, and June.

June, in particular, was dominated by several Hollywood films such as *F1, Superman* and *Jurassic World*. On the domestic front, we had *Sitaare Zameen Par*, *Housefull 5*, and *Raid 2*, all of which grossed over ₹200 crore. These films resonated with audiences, contributing significantly to the rise in footfall. The Hindi film industry has bounced back and is now

delivering a variety of content that is performing strongly at the box office.

We saw Aamir Khan opting to release *Sitaare Zameen Par* directly on YouTube. Do you think this is a one-off or

WE'VE INTRODUCED A VERY SUCCESSFUL INITIATIVE — THE ₹99 TUESDAY OFFER. IT HAS SIGNIFICANTLY BOOSTED ADMISSIONS



a sign of a deeper trend in the OTT industry?

I think it's a very progressive move that reflects his commitment to the theatrical format, and it has paid off, with the movie doing over ₹200 crore. Whether other producers will follow suit, I'm not sure. Globally, the theatrical window is a key concern for exhibitors. In India, the window is just eight weeks.

In contrast, countries like France, which support the theatrical business because it generates both revenue and employment, maintain much longer windows of up to six months. That's something we should move towards if we want to protect theatres.

What is the outlook for the coming year and is there any significant development in the works?

The pipeline of films is very strong. We've introduced a very successful initiative — the ₹99 Tuesday offer. It has significantly boosted admissions; we're now seeing 400,000–5,00,000 people on Tuesdays, compared to just 100,000–150,000 earlier.

On the technology front, we're deploying AI to enhance customer experience. We're also exploring how AI can help reduce operational costs across the organisation.

TCS readies to roll-out wage hikes for 80% staff from Sept



MOUMITA BAKSHI CHATTERJEE
New Delhi, August 6

INDIA'S LARGEST IT services company Tata Consultancy Services (TCS) on Wednesday informed employees that it will roll-out wage hikes for about 80% of workforce, covering mid to junior levels. The wage hikes will be effective September 1, according to an email by TCS CHRO Milind Lakkad and CHRO Designate K Sudeep to employees.

"We are pleased to announce a compensation revision for all eligible associates in grades upto C3A and equivalent, covering 80% of our workforce. This will be effective 1st September 2025," says the email.

The email adds: "We would like to thank each one of you for your dedication and hard work, as we build the future of TCS together." The extent of wage hikes could not be immediately ascertained.

When reached for comment, the company in a statement said: "We can confirm that we will be issuing wage hikes to around 80% of our employees effective 1st September 2025."

The wage hike comes at a time when TCS is set to lay off about 2% or 12,000 employees with the majority of those impacted belonging to middle and senior grades. As of June 30, 2025, TCS' workforce stood at 613,069.

The company increased its workforce by 5,000 employees in the recently-concluded April-June quarter.

The layoffs are part of the company's broader strategy to become a "future-ready organisation", focusing on investments in technology, AI deployment, market expansion, and workforce realignment. The company had previously stated.

— PTI



CIN: L26922HR190PLC010901

Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana)

Ph. No. (01662) 222471-83, Fax No. (01662) 2220499, Email Id. for Investors: investorcare@jindalstainless.com, Website: www.jindalstainless.com

EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(₹ in crores except per share data)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended		For the year ended	
		30 June 2025	31 March 2025	30 June 2024	31 March 2025
		Unaudited	Audited (Refer Note 3)	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	10,207.14	10,198.32	9,429.76	39,312.21
2	EBITDA *	1,309.80	1,060.88	1,211.72	4,686.63
3	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	969.05	735.61	885.94	3,346.02
4	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	969.05	728.75	885.94	3,338.96
5	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	714.66	589.96	646.07	2,499.72
6	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	713.57	601.62	647.16	2,537.18
7	Paid up equity share capital (face value of ₹2/- each)	164.73	164.73	164.69	164.73
8	Other equity	17,249.22	16,523.21	14,842.75	16,523.21
9	Securities premium account	4,120.10	4,119.73	4,102.26	4,119.73
10	Net worth	17,413.95	16,687.94	15,007.44	16,687.94
11	Paid up debt capital #	99.00	286.50	474.00	286.50
12	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-
13	Debt equity ratio	0.35	0.38	0.43	0.38
14	Earning per share (EPS) (face value of ₹2/- each) a) Basic b) Diluted (EPS for the quarter not annualised)	8.67 8.66	7.18 7.17	7.87 7.86	30.42 30.41
15	Capital redemption reserve	20.00	20.00	20.00	20.00
16	Debt redemption reserve #	-	-	-	-
17	Debt service coverage ratio	2.94	2.18	5.27	3.26
18	Interest service coverage ratio	9.57	7.71	8.85	8.11

* EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income
Listed debt

- Notes:
- The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR)"). The full format of the standalone and consolidated quarterly/annual financial results along with other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) are available on the Company's website: www.jindalstainless.com and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.
 - Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

(₹ in crores)

Particulars	For the quarter ended		For the year ended	
	30 June 2025	31 March 2025	30 June 2024	31 March 2025
	Unaudited	Audited (Refer Note 3)	Unaudited	Audited
Total income from operations	10,340.51	10,785.53	9,584.90	40,181.68
EBITDA *	1,047.79	890.48	1,004.40	3,905.20
Profit before tax (before exceptional items)	862.78	955.03	788.26	3,367.63
Profit before tax (after exceptional items)	862.78	1,106.58	788.26	3,519.18
Profit after tax	641.64	924.94	578.32	2,711.19

3. The figures for the quarters ended 31 March 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial years and published year to date figures upto the third quarter of years ended 31 March 2025.



Place: New Delhi
Date: 06 August 2025

By Order of the Board of Directors
For Jindal Stainless Limited

Tarun Kumar Khulbe
Chief Executive Officer, Chief Financial Officer
and Whole Time Director



We Shape What Shapes Lives

BITES LIMITED
(A Navratna CPSE)

Registered Office: SCOPE Minar, Laxmi Nagar,
Delhi-110092; India. Ph.: 0124-2571666;
Website: www.rites.com; E-mail: cs@rites.com;
CIN: L74899DL1974GOI007227

(₹ in crores except EPS)

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1	Revenue from Operations	455.73	586.61	453.78	2,095.31	489.74	615.43	485.76	2,217.81
2	Total Income	20.18	36.04	21.36	147.85	21.98	23.52	22.49	105.71
3	Other Income	475.91	622.65	475.14	2,243.16	511.72	638.95	508.25	2,323.52
4	Net Profit/ (Loss) Before Tax*	89.75	181.83	86.45	499.23	121.59	194.75	114.98	565.02
5	Net Profit/ (Loss) After Tax for the Period/ Year*	66.65	134.41	64.86	380.22	90.89	141.33	90.44	423.66
6	Total Comprehensive Income [Comprising Profit/ (Loss) (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	67.11	132.65	66.14	382.08	91.45	139.66	91.79	425.65
7	Equity Share Capital	480.60	480.60	240.30	480.60	480.60	480.60	240.30	480.60
8	Other Equity (excluding non-controlling interest)				2,052.70				2159.55
9	Earnings per share (EPS)** (Note No. 6)								
	Basic (₹)	1.39	2.80	1.35	7.91	1.67	2.76	1.64	8.01
	Diluted (₹)	1.39	2.80	1.35	7.91	1.67	2.76	1.64	8.01

* There were no Exceptional items during the period.

** EPS is not annualized for the quarter ended June 30, 2025, March 31, 2025 & June 30, 2024.

Notes:

- The above results have been reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 6th August, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly and annual financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and annual financial results are available on the stock exchange websites: www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company's website www.rites.com.
- The Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
- Ministry of Railways (MoR) vide letter dated 18.10.2021 had decided in principle for closure of Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC), in which Company has an investment of ₹48 Crores. Pursuant to requisite approval of the Board and Shareholders of IRSDC, the process of voluntary liquidation of IRSDC has been initiated. Financial Statements of IRSDC has been prepared on liquidation basis. As on 30.06.2025, net worth of IRSDC comes to ₹238.69 Crores, out of which 24% share i.e. ₹57.29 Crores belong to RITES. Therefore, management does not perceive any impairment in the value of investment.
- The Company has an investment of ₹ 0.60 Crore in MMG-Metro Management Group Limited. Pursuant to requisite approval of Board & Shareholders of MMG-Metro Management Group Limited, the process of voluntary dissolution

Place: Gurugram
Date: 06.08.2025

- The Company has already impaired the value of investment in MMG-Metro Management Group Limited.
- The Company has allotted 24,03,01,887 equity shares of ₹10/- each as fully paid bonus shares in the ratio of one equity share of ₹10/- each for every one equity share held on record date i.e. 20th September, 2024. This has been considered for calculating weighted average number of equity shares for all comparative periods presented as per Ind AS 33. In line with the above, EPS (basic and diluted) have been adjusted for all the periods presented. Additionally, the Company has increased the Authorized Share Capital from ₹300 Crores to ₹600 Crores during the financial year 2024-25.
- The Board of Directors have declared 1st Interim Dividend of ₹ 1.30 per share (face value of ₹10 per share) for the financial year 2025-26.
- Figures for the quarter ended 31st March, 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the figures for nine months ended 31st December, 2024 which were subject to limited review.
- The figures for the previous period have been regrouped/ reclassified, wherever necessary.



For & on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Rahul Mittal)
Chairman & Managing Director and Chief Executive Officer
DIN: 07610499
www.rites.com

Future Ready Not just more of the same; but much more of the New!

Railways | Exports | Urban Infrastructure & Sustainability | Highways | Bridges & Tunnels | Buildings & Airports | Ports & Harbours | Ropeways | Quality Assurance



INDIAN
RAILWAY
FINANCE
CORPORATION
(A NAVRATNA CPSE UNDER MINISTRY OF RAILWAYS)

Future on Track

Indian Railway Finance Corporation Limited

(A NAVRATNA CPSE UNDER MINISTRY OF RAILWAYS)

CIN: L65910DL1986GOI026363
UG-Floor, East Tower, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg,
Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi – 110003
Phone: +91 011 – 24361480
Email: investors@irfc.co.in; Website: <https://irfc.co.in>

PUBLIC NOTICE OF CONVENING 38th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

- Notice is hereby given that 38th Annual General Meeting (the "AGM") of Indian Railway Finance Corporation Limited (the "Company") will be held on **Saturday, 30th August, 2025 at 03:30 P.M. (IST)** through **Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules notified thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the businesses, as set out in the notice calling the AGM. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.
- The VC/OAVM facility for the meeting shall be provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") to transact the businesses set out in the Notice convening the AGM. The Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.
- In Compliance with the MCA & SEBI circular(s), Notice stating out the businesses to be transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the year 2024-25 have been sent electronically to those members whose email address is registered with the Company / Depository Participant(s). For all those shareholders who have not so registered, a letter providing the web-link including the exact path and QR Code where the complete details of the Annual Report are available, has been sent at their address registered with the company or as available from the data downloaded from the depositories. However, the physical copy of Annual Report will be provided to those shareholders who will specifically request for the same. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website at https://irfc.co.in/sites/default/files/inline-files/Annual%20Report%202024-25_0.pdf and on the website of Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM.
- Further, pursuant to the provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (LODR) Regulations, 2015 it is informed that the Company has fixed the following dates in connection with the 38th AGM.

Sr.No.	Particulars	Details
1	Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to vote by electronic means or during the general meeting	Saturday, 23 rd August, 2025
2	Period of remote e-voting to enable shareholders as on the cut-off date i.e., Saturday, 23 rd August, 2025 to cast their votes on proposed resolution electronically	The remote e-voting period begins on Wednesday, 27th August, 2025 at 9:00 AM (IST) and ends on Friday, 29th August, 2025 at 5:00 PM (IST) .

- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility (remote e-voting). Any Person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires shares of the company and become a Member of the Company after sending of the Notice and is holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he / she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he / she can use his / her existing user ID and password for casting the vote.
- The facility for e-voting will also be made available during the AGM to those members who could not cast their vote(s) through remote e-voting. The remote e-voting module will be disabled after the date and time as aforementioned. Once the member casts the vote on a resolution, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure for e-voting before as well as during the AGM is provided in the Notice of the AGM. Members who do not receive email or whose email address is not registered with the company/DP, may generate login credentials as per the instructions given in the Notice of AGM.
- Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and on particular, instructions for joining the AGM and manners of casting vote through remote e-voting at the AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager at evoting@nsdl.com.



For Indian Railway Finance Corporation Limited

Place: New Delhi
Date: 06-08-2025

Sd/-
Vijay Babul Shirode
Company Secretary

Scan QR Code for 38th Annual report

Important Notice:

- Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, permanent account number (PAN), register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfcinvestors@beetalmail.com.
- Shareholders are requested to claim their unpaid/ unclaimed dividend, if any by writing to company at its Registered Office or email at investors@irfc.co.in or to RTA of the company at irfcinvestors@beetalmail.com. Dividends if not encashed for a consecutive period of seven (7) years lying with the Companies unpaid dividend accounts, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") along with the shares in respect of such unclaimed dividends.

धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की

युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 6 अगस्त।

उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के धराली कस्बे में मंगलवार को विभीषण आपदा के बाद बुधवार को भी सेना और अन्य एजेंसियों ने बचाव और राहत कार्य जारी रखा। सूजों के मुताबिक, 70 से ज्यादा लोग लापता हैं और सबसे ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब तक बचाव और राहत दलों ने डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों को मलबे से निकलकर इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भेजा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से भी भेंट की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से दो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वायुसेना के चिन्नूक हेलीकाप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है, जिससे मार्गों की मरम्मत,



मलबा हटाने और अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से अंजाम दिया जा सके। धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे। आपदा ग्रस्त धराली (उत्तरकाशी) में राहत एवं बचाव अभियान में केंद्र के साथ ही राज्य की एजेंसियां भी युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने चंडीगढ़, सरसावा और आगरा से 2 चिन्नूक और 2 एमआई झ्र 17 हेलीकाप्टर, बुधवार तड़के ही जेलीग्रांट एयरपोर्ट पर उपलब्ध करा दिए। सड़क यातायात बहाल करने के लिए चिन्नूक हेलीकाप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है। बचाव अभियान में सेना के 125 अधिकारी और जवान, आइटीबीपी के 83 अधिकारी और जवान भी लगे हुए हैं।

इधर, बीआरओ के 6 अधिकारी, 100 से अधिक मजदूरों के साथ बाधित सड़कों को खोलने में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालवाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से भी भेंट की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से दो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है।

विभाग ने आपदा में घायलों को उपचार प्रदान करने के लिए दून मेडिकल कालेज, कोरोनेशन जिला अस्पताल और एम्स ऋषिकेश में बेड आरक्षित किए हैं, विशेषज्ञ डाक्टरों का भी उत्तरकाशी के लिए रवाना किया गया है। मनोचिकित्सक भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी हैं और घायलों का उपचार शुरू कर दिया गया है।

जल्द ही अन्य मेडिकल टीमों भी राहत कार्यों में जुट जाएंगी। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि धराली आपदा की चुनौती के बीच स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित और ठोस कदम उठाए हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गई हैं, ग्राउंड जीरो पर टीमें सक्रिय हैं, और मानसिक स्वास्थ्य जैसे पहलू को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डा आर राजेश कुमार ने देहरादून में दून अस्पताल व कोरोनेशन जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

फूलों की घाटी में फंसे पर्यटकों को बचाया गया

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 6 अगस्त।

उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में वर्षा आफत साबित हो रही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में घूमने गए 150 पर्यटक घूसा नाला उफान पर आने से पुल बहने के चलते फंस गए। हालांकि देर शाम सभी पर्यटकों को वन विभाग ने बचाव एवं राहत अभियान शुरू कर सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। खतरे को देखते हुए बुधवार को फूलों की घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद रखी गई थी। मंगलवार को घांघरिया से फूलों की घाटी की सैर करने गए 150 पर्यटक

गए थे। लेकिन दिनभर वर्षा के चलते घूसा नाला उफान पर आने से अस्थायी पुलिया बह गई। जिससे पर्यटक वापस आने के दौरान फंस गए। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। देर सांय तक सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गय।

फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के अनुभाग अधिकारी जय प्रकाश के नेतृत्व में मान सिंह, अरविंद कुंवर, प्रीतम सिंह व मनोज भट्ट सहित बोट अधिकारियों की टीम ने विभिन्न ट्रैकिंग कंपनियों के गाइडों के साथ मिलकर पर्यटकों को सुरक्षित नाला पार कराया। बताया गया कि वर्षा के चलते नाले का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था जिससे बचाव एवं राहत अभियान के दौरान खतरा था।



भर्ती

वाफ्कोस लिमिटेड, आईएसओ 9001:2015 भारत सरकार का उपक्रम, चल रही परियोजनाओं और आगामी परियोजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए, नियमित आधार पर 2 पद कनिष्ठ सहायक (पी एंड ए) और 2 पद कनिष्ठ सहायक (चित्त) की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी हेतु केवल हमारी वेबसाइट <https://www.wapcos.co.in/career/> को देखें। इस संबंध में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, केवल वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा।

उप मुख्य प्रबंधक (मा.सं.)



STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of Hero MotoCorp Limited ("the Company") at its meeting held on August 06, 2025, approved the un-audited (standalone and consolidated) Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025.

The Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website at <https://www.heromotocorp.com/en-in/company/investors/annual-report.html?key1=quarterly-results> and can be accessed by scanning the QR Code.



Date: August 06, 2025
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors
Dr. PAWAN MUNJAL
Executive Chairman
DIN: 00004223

Note: The above information is in accordance with Regulation 33 & 47 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015

Financial Highlights	Key Parameters		Quarter ended June 25	Quarter ended June 24
	Revenue from operations	Standalone	Rs. 9,579 Crores	Rs. 10,144 Crores
		Consolidated	Rs. 9,728 Crores	Rs. 10,211 Crores
	Profit after Tax (PAT)	Standalone	Rs. 1,126 Crores	Rs. 1,123 Crores
		Consolidated	Rs. 1,706 Crores	Rs. 1,032 Crores

Hero MotoCorp Ltd. - Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj- Phase-II, New Delhi- 110070. | CIN No. L35911DL1984PLC017354 • Visit www.heromotocorp.com

SAATCHI & SAATCHI

प्राचीन शिव मंदिर कल्प केदार मलबे में दबा

उत्तरकाशी, 6 अगस्त (भाषा)।

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में आयी विनाशकारी बाढ़ से यहाँ स्थित प्राचीन शिव

मंदिर कल्प केदार मलबे में दब गया।

ऐसा बताया जाता है कि पिछली बार आई किसी आपदा के कारण यह मंदिर कई वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रहा था तथा केवल इसका उपरी हिस्सा ही दिखाई देता था।

PHARMAIDS PHARMACEUTICALS LIMITED

Corporate Identification Number: L52520KA1989PLC173979

Registered Office: Unit 201, 2nd Floor, Brigade Rubix, 20/14, HMT Factory Main Road, Peenya Plantation, Bengaluru, Karnataka, India - 560013

Tel: +91-9611551732/ 080-49784319 | Email: compliance@pharmaids.com | Website: www.pharmaids.com

This Advertisement is being issued by, Saffron Capital Advisors Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of, Shankarappa Nagaraja Vinaya Babu ("Acquirer") and Tumkur Trade Center Private Limited ("PAC") to acquire upto 91,69,632 (Ninety One Lakh Sixty Nine Thousand Six Hundred Thirty Two) Fully Paid-Up Equity Shares of ₹ 10/- each for cash at a price of ₹ 62.15/- (Rupees Sixty Two Point One Five Only) Per Equity Share Aggregating upto ₹ 56,98,92,629/- (Rupees Fifty-Six Crore Ninety-Eight Lakh Ninety Two Thousand Six Hundred and Twenty Nine Only), to the Public Shareholders of Pharmaids Pharmaceuticals Limited ("Target Company") Pursuant to and in Compliance with the Requirements of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") ("Offer" Or "Open Offer").

Kind Attention- Physical Shareholders of Pharmaids Pharmaceuticals Limited

Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form and who have not received the physical copy of Letter of Offer ("LOF") for any reason whatsoever, may send request to Registrar & Transfer Agent to the Open Offer, Cameo Corporate Services Limited at priya@cameoindia.com and avail soft copy of the LOF. Alternatively, Eligible Shareholders may also download the soft copy of LOF from the website of SEBI's website www.sebi.gov.in or Manager to the Offer, www.saffronadvisor.com or BSE, www.bseindia.com. Eligible Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" at page 40 of the LOF in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or DPS and/or LOF and/or Corrigendum. The Acquirer along with PAC accept full responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer and PAC as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER ALONG WITH PAC	REGISTRAR TO THE OFFER
<div>SAFFRON ***** emerging ideas</div> <div>SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri-Kurla Road, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400 059, Maharashtra, India. Tel. (No.): +91 22 49730394 Email id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor Grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration No.: INM 000011211 Validity: Permanent Contact Person: Satraj Darda/ Sachin Prajapati</div>	<div>CAMEO</div> <div>CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building", No.1, Club House Road, Chennai-600 002, Tamil Nadu, India. Tel: +91-44-40020700 / 40020706 / 40020741 / 40020708 Email id: priya@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Investor grievance: investor@cameoindia.com SEBI Registration Number: INR000003753 Validity: Permanent Contact Person: Sreepriya. K</div>
Place: Tumkur Date: August 06, 2025	

AdBaaaz



इंडियन रेलवे फाइनंस कॉर्पोरेशन
(रेल मंत्रालय का नगरल उपक्रम)

इंडियन रेलवे फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का नगरल उपक्रम)
सीआईएन: **L65910DL1986GOI026363**
यूजी-प्लोर, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोन: 91 011 – 24361480
ईमेल: investors@irfc.co.in; वेबसाइट: <https://irfc.co.in/>

वीसी/ओपीएम के माध्यम से 38वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की सार्वजनिक सूचना

- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इंडियन रेलवे फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की 38वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दाखिल और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में एजीएम बुलाने के नोटिस में कथा निर्दिष्ट व्यापार का लेन-देन करने के लिए **शनिवार, 30 अगस्त, 2025 को अपराह्न 3:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")** और अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स ("ओपीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक का अनुमानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
- बैठक के लिए वीसी/ओपीएम सुविधा एजीएम बुलाने की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए नेशनल सिक्कोरिटीज डिफॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की जाएगी। सदस्य केवल वीसी/ओपीएम के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से एजीएम में भाग लेने के लिए कोई प्राक्कान नहीं किया गया है। एजीएम के लिए कोरम की गणना करने के उद्देश्य से वीसी/ओपीएम के माध्यम से उपस्थिति की गिनती की जाएगी।
- एमसीए और सेबी परिपत्र (परिपत्रों) के अनुपालन में, वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले व्यवसाय की निर्दिष्ट करने वाला नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनका ईमेल पता कंपनी/डिफॉजिटरी सहभागी (सहभागियों) के साथ पंजीकृत है। जिन शेरधारकों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए कंपनी में पंजीकृत पते पर या डिफॉजिटरी से डाउनलोड किए गए डेटा के आधार पर, वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध कराने वाला एक पत्र भेजा गया है, जिसमें वेब-लिक, सटीक पथ और क्यूआर कोड शामिल है। हालांकि, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन शेरधारकों को प्रदान की जाएगी जो इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध करेंगे। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://irfc.co.in/sites/default/files/inline-files/Annual%20Report%202024-25_0.pdf पर और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्कोरिटीज डिफॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओपीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार, वीसी/ओपीएम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम की गणना के लिए की जाएगी। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।
- इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 38वीं एजीएम के संबंध में निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की हैं।

क्रम सं.	व्योरा	विवरण
1	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या आम बैठक के दौरान मतदान करने के लिए शेरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि	शनिवार, 23 अगस्त, 2025
2	शेरधारकों को कट-ऑफ तारीख अर्थात् शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को प्रस्तावित रोल्यूशन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को सांय 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है।
5.	सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय पर अपना/अपने वोट डालने का अवसर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो भौतिक रूप में शेर रखता है और कोई भी गैर-व्यक्तिगत शेरधारक जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।	
6.	एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल पाए थे। ऊपर बताई गई तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में उस में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। एजीएम से पहले और उसके दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। जिन सदस्यों को ई मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनका ईमेल पता कंपनी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं।	
7.	सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स, विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश और वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के तरीकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर वरिष्ठ प्रबंधक, सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं।	
<div></div>		कृते इंडियन रेलवे फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हस्ता./ विजय बाबूलाल शिरोडे कंपनी सचिव
38वीं वार्षिक रिपोर्ट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।		

महत्वपूर्ण सूचना: 1. सीमैटीरियलइज्ड मॉड में शेर रखने वाले शेरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, और स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपडेट करें, अपने ईमेल पते, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपने डिफॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से संबंधित डिफॉजिटरी के साथ पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेर रखने वाले शेरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स मीटल फाइनैशियल एंड कंज्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड को irfcinvestors@beetalmail.com पर विवरण प्रस्तुत करें। 2. शेरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो, का दावा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लिखित में या investors@irfc.co.in पर या कंपनी के आर एंड टीए को irfcinvestors@beetalmail.com पर ईमेल करें। यदि कंपनी के अप्रदत्त लाभांश खातों में पड़े लाभांश को सात (7) वर्षों की लगातार अवधि तक गुनाया नहीं जाता, तो उन्हें ऐसे दावा न किए गए लाभांश के संबंध में शेरों के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ("आईडीपीकै") में स्थानांतरित किया जा सकता है।